



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 27, 1979/आषाढ़ 6, 1901

No. 207]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 27, 1979/ASADHA 6, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 27 जून, 1979

सीमा-शुल्क

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th June, 1979

CUSTOMS

सं० का० वि० 407 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का. 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 206, सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद (3) और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“3(क) जगुअर वायुयान के लिए जिग, भोजार और भूमि पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण, ”।

[सं० 136/का० सं० 355/80/79-सी० सु०-I]

G.S.R. 407(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 206-Customs dated 2nd August, 1976, namely :—

In the said notification, after item (3) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

“(3A). Jigs, tools and ground handling equipments for Jaguar aircraft ;”

[No. 136/F. No. 355/79/Cus. 1]

सीमा-शुल्क

CUSTOMS

सा० का० नि० 408 (प्र) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 142-सीमा-शुल्क, तारीख 28 जुलाई, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, "30 जून, 1979" श्रृंखला और शब्द के स्थान पर "30 जून, 1980" श्रृंखला और शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 137/का० सं० 355/119/79-सी० शु०-I]

CUSTOMS

G.S.R. 408(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 142-Customs, dated the 28th July, 1978, namely:—

In the second paragraph to the said notification, for the figures, letters and words "30th day of June, 1979", the figures, letters and words "30th day of June, 1980" shall be substituted.

[No. 137/F. No. 355/119/79-Cus. II]

सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 409 (प्र) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, वारी पिच सीध (बन्धी) स्टेपलेस तन्तुधारा गति नियंत्रक के पुर्जों को जब उसका भारत में आयात किया जाए और सहायक सीमाशुल्क कलक्टर के समाधान प्रदत्त रूप में यह साबित कर लिया जाए कि उक्त पुर्जे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 84.63 के अन्तर्गत आने वाले ऐसे स्पिडल गति नियंत्रकों की मूल विरचना के प्रयोजन के लिए, टेक्सटाइल मशीनरी के लिए या उसके संयोजन या विनिर्माण के लिए अपेक्षित हैं, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्घाटनीय उतने सीमाशुल्क से जितना 40% मूल्यानुसार से अधिक है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देनी है, अर्थात्:—

(1) टेक्सटाइल आयुक्त का या ऐसे किसी अधिकारी का जो सहायक निवेशक से निम्न पंक्ति का न हो, जिसे टेक्सटाइल आयुक्त विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत करे, यह समाधान हो जाता है और यह प्रमाणित करता है कि प्रयोज्य पुर्जों का उपयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपेक्षित है या होगा और वह उपयुक्त छूट देने की सिफारिश करता है।

(2) आयातकर्ता ऐसे प्रकृति में और ऐसी राशि के लिए जैसा सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर विहित करे, बंधपत्र निष्पादित करके ऐसे पुर्जों की बाबत जिसकी बाबत सहायक सीमाशुल्क कलक्टर के समाधानपद रूप में यह साबित नहीं किया गया है कि उनका उपयोग पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए किया गया है। ऐसे पुर्जों पर, यदि इसमें अन्तर्लिखित छूट न की गई होती तो, उद्घाटनीय शुल्क और आयात करते समय पहले ही संयोज्य शुल्क के अंतर के बराबर रकम का मांग पर संदाय करने के लिए अपने को बाध्य करता है।

[सं० 138/का० सं० 355/144/78-सी० शु०-I]

G.S.R. 409(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts parts of vari pitch sheave stepless spindle speed regulator, when imported into India and proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to be required for the purpose of the initial setting up of such spindle speed regulators falling under Heading No. 84.63 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), for textile machinery or for its assembly or manufacture, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of 40 per cent ad valorem, subject to the conditions, namely:—

(1) The Textile Commissioner or any officer not below the rank of the Assistant Director specifically authorised by the Textile Commissioner is satisfied and certifies that the parts in question are or will be required for the purpose specified above and recommend grant of the above exemption.

(2) The importer shall, by the execution of a bond in such form and for such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, bind himself to pay on demand, in respect of such parts as are not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose an amount equal to the difference between the duty leviable on such parts but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation

[No. 138/F. No. 355/146/78-Cus. II]

सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 410 (प्र) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 31 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 104 सीमाशुल्क, तारीख 10 मई, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं० 222 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"223 सं० 138-सीमा-शुल्क तारीख 27 जून, 1979"।

[सं० 139/का० सं० 355/146/78-सी० शु० I]

CUSTOMS

G.S.R. 410(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 31 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 104-Customs dated 10th May, 1979, namely:—

In the schedule to the said notification, after serial No. 222 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"223. No. 138-Customs dated 27-6-1979"

[No. 139/F. No. 355/146/78-Cus. II]

सीमा-शुल्क

सांकांमि० 411 (अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विरुद्धित करती है, अर्थात्:—

1. सं० 131-सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
2. सं० 132-सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
3. सं० 133-सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।

[सं० 140/फा०सं० 358/1/76-सी०शु० I]

CUSTOMS

G.S.R. 411(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, namely:—

1. No. 131—Customs, dated the 2nd August, 1976
2. No. 132—Customs, dated the 2nd August, 1976
3. No. 133—Customs, dated the 2nd August, 1976.

[No. 140/F. No. 358/1/76-CUS. I]

सीमा-शुल्क

सांकांमि० 412 (अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाययुक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 15) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 8 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है, जितना—

(क) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क की दर, जहां मानक दर उद्ग्रहणीय है; और

(ख) उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में, विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क की दर, जहां अधिमानी दर उद्ग्रहणीय है, से अधिक है।

सारणी

संख्या	वस्तु का विवरण	मानक सीमा-शुल्क दर	अधिमानी सीमा-शुल्क दर
1	2	3	4
1.	बेवताना किम्म से भिन्न अनार	30 प्रतिशत मूल्यानुसार	20 प्रतिशत मूल्यानुसार
2.	सूखे खजूर बीज रहित को छोड़कर—		
	(क) शेकरा या शकरिया, सकीना और ब्रामी	90 प्रतिशत मूल्यानुसार	80 प्रतिशत मूल्यानुसार

	1	2	3	4
(ख) कपकपा, चर्रा, सुवचाप, सरकी, सोरी, ओमानी और भटनी	70 प्रतिशत मूल्यानुसार	60 प्रतिशत मूल्यानुसार		
(ग) अन्य सभी किस्में	55 प्रतिशत मूल्यानुसार	45 प्रतिशत मूल्यानुसार		
3. गीले खजूर बीज रहित को छोड़कर पैलों, टोकरियों, बोरो या चटार्ई के बंडलों में।	60 प्रतिशत मूल्यानुसार	50 प्रतिशत मूल्यानुसार		

[सं० 141/फा०सं० 358/1/76-सी०शु० I]

CUSTOMS

G. S. R. 412(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts each of the articles specified in column (2) of the Table annexed hereto and falling within Chapter 8 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from payment of so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of—

- (a) the rate of duty specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, where the standard rate of duty is leviable, and
- (b) the rate of duty specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, where the preferential rate of duty is leviable.

TABLE

Sl. No.	Description of article	Standard rate of duty	Preferential rate of duty
1	2	3	4
1.	Pomegranates other than Be-dana variety	30 per cent ad valorem	20 per cent ad valorem
2.	Dates, dry excluding seedless—		
	(a) Shekra or Shakeria, Sakina and Brami	90 per cent ad valorem	80 per cent ad valorem
	(b) Kapkapa, Charra Chupchap, Sarki, Sori, Omani and Bhatni	70 per cent ad valorem	60 per cent ad valorem
	(c) All other qualities	55 per cent ad valorem	45 per cent ad valorem
3.	Dates, wet, excluding seedless in bags, baskets, gunny cloth or matting bundles	60 per cent ad valorem	50 per cent ad valorem

[No.141/F.No.358/1/76-CUS.I]

सीमा-शुल्क

CUSTOMS

सं० का० नि० 413 (प्र) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, इससे उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 8 के अन्तर्गत आने वाले माल के लिए, इससे स्तम्भ (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट टैरिफ मूल्य नियत करती है, जो तुरन्त प्रभावी होगा।

अनुसूची

क्रम सं०	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य
1	2	3
1.	बादाम : छिलकों वाले	
(I)	कटे छिलकों वाले—	
(1)	अफगानिस्तान मूल के	920 रु० प्रति क्विंटल
(2)	ईरानी मूल के	755 रु० प्रति क्विंटल
(II)	मुलायम छिलकों वाले—	
(1)	अफगानिस्तान मूल के	1725 रु० प्रति क्विंटल
(2)	ईरानी मूल के	2185 रु० प्रति क्विंटल
2.	बादाम की गुठली—	
(1)	अफगानिस्तान मूल की	2880 रु० प्रति क्विंटल
(2)	अफगानिस्तान मूल से भिन्न	4635 रु० प्रति क्विंटल
3.	किशमिश, अफगानिस्तान और ईरानी मूल की—	
(क)	किशमिश	1140 रु० प्रति क्विंटल
(ख)	सुस्ताना	750 रु० प्रति क्विंटल
(ग)	आबजोश	740 रु० प्रति क्विंटल
(घ)	अन्य	540 रु० प्रति क्विंटल
4.	खजूर—	
(क)	चुपचाप	385 रु० प्रति क्विंटल
(ख)	जरक हलावी	250 रु० प्रति क्विंटल
(ग)	गोले खजूर	160 रु० प्रति क्विंटल
(घ)	अन्य	385 रु० प्रति क्विंटल

G. S. R. 413(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary so to do, hereby fixes with immediate effect, for the goods specified in column (2) of the Schedule annexed hereto and falling within Chapter 8 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the tariff values specified in the corresponding entry in column (3) thereof—

SCHEDULE

Sl. No.	Description of goods	Tariff Values
1	2	3
1.	Almonds in the shell	
(i)	Hard shell	
(1)	of Afghanistan origin	Per quintal Rs. 920
(2)	of Iranian origin	Per quintal Rs. 755
(ii)	Soft shell	
(1)	of Afghanistan origin	Per quintal Rs. 1725
(2)	of Iranian origin	Per quintal Rs. 2185
2.	Almond Kernals	
(1)	of Afghanistan origin	Per quintal Rs. 2880
(2)	of other than Afghanistan origin	Per quintal Rs. 4635
3.	Raisins of Afghanistan and Iranian origin	
(a)	Kishmish	Per quintal Rs. 1140
(b)	Sultanias	Per quintal Rs. 750
(c)	Abjosh	Per quintal Rs. 740
(d)	Others	Per quintal Rs. 540
4.	Dates	
(a)	Chupchap	Per quintal Rs. 385
(b)	Zarak Halawi	Per quintal Rs. 250
(c)	Wet dates	Per quintal Rs. 160
(d)	Others	Per quintal Rs. 385

[सं० 142/फा० सं० 358/1/76-सी० शु० I]

एस० बसु, सचिव

[No. 142/F.No.358/1/76-Cus.I]

S. BASU, Under Secy.